



लोक सभा सचिवालय  
प्रेस एवं जन सम्पर्क स्कंध  
संसद भवन, नई दिल्ली  
**LOK SABHA SECRETARIAT**  
Press and Public Relations Wing  
Parliament House, New Delhi

## प्रेस विज्ञप्ति PRESS RELEASE

**लोक सभा अध्यक्ष ने आज ऑस्ट्रिया में बसे प्रवासी भारतीयों को सम्बोधित किया/ LOK SABHA SPEAKER SHRI OM BIRLA ADDRESSES INDIAN DIASPORA IN AUSTRIA**

...

**प्रवासी भारतीय अपनी मातृभूमि के गुडविल एम्बेसडर हैं: लोक सभा अध्यक्ष/ INDIANS IN AUSTRIA ARE GOODWILL AMBASSADORS OF THEIR MOTHERLAND: LOK SABHA SPEAKER**

...

**भारतीयों ने ऑस्ट्रिया में अलग-अलग क्षेत्रों में अपना उत्कृष्ट योगदान देकर अपनी जन्मभूमि एवं कर्मभूमि दोनों की सेवा की है: लोक सभा अध्यक्ष/ INDIAN DIASPORA HAS SERVED BOTH THEIR NATIVE AND ADOPTED LANDS THROUGH CONTRIBUTION IN VARIOUS FIELDS IN AUSTRIA: LOK SABHA SPEAKER**

**विएना 10 सितम्बर 2021: लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज ऑस्ट्रिया में बसे प्रवासी भारतीयों को सम्बोधित किया। श्री बिरला ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया के बीच**

लंबे समय से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं तथा दोनों देशों के बीच विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बहुपक्षीय संस्थानों में सहयोग की लम्बी परंपरा रही है।

उन्होंने भारतीय समुदाय के अथक प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक वृद्धि का श्रेय भारतीय समुदाय को जाता है। श्री बिरला ने आगे कहा कि प्रवासी भारतीय लोग अपनी मातृभूमि की संस्कृति और संस्कारों के गुडविल एम्बेसडर हैं। श्री बिरला ने उनके योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रिया में अलग-अलग क्षेत्रों में अपना उत्कृष्ट योगदान देकर अपनी जन्मभूमि एवं कर्मभूमि, दोनों की सेवा की है।

श्री बिरला ने कहा कि विदेशों में रहते हुए प्रवासी भारतीय समुदाय भारत की सांस्कृतिक, भाषायी और धार्मिक विविधताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा अंतरराष्ट्रीय राजनय में प्रवासी नागरिक सॉफ्ट पावर के रूप में कार्य करते हैं।

कोविड वैश्विक महामारी के विषय में श्री बिरला ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का सामना करने के लिए विश्व सहयोग और राष्ट्रीय कार्यनीति दोनों आवश्यक हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय समुदाय ने भारत में कोविड नियंत्रण के लिए सम्पूर्ण योगदान किया तथा प्रचूर मात्रा में पी पी ई किट एवं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजकर अपने दायित्वों को निभाया। श्री बिरला ने आगे कहा विदेशों में बसे मिनी इंडिया के जरिये भारतीय समुदाय अपनी कर्मभूमि में देश की मिटटी की खुशबु को जीवंत रखता है।

आजादी के अमृत महोत्सव के विषय में श्री बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस महोत्सव के जरिए एक नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की परिकल्पना की है तथा इस पथ पर भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है।

उनके इस सम्बोधन में ऑस्ट्रिया की राजधानी विएना में स्थित भारतीय दूतावास में भारत के राजदूत श्री जयदीप मजूमदार भी शामिल रहे।

**Vienna 10 September 2021:** Lok Sabha Speaker Shri Om Birla addressed Indian diaspora in Austria, today. Shri Birla said that India and Austria have friendly and cordial relations and the two countries have a long tradition of cooperation in multilateral institutions on various international issues.

Praising the tireless efforts of Indians living in Austria, he said that the credit for the growth of trade between the two countries also goes to the Indian community. Shri Birla further said that the Indians in Austria are goodwill ambassadors of their motherland. Referring to their contribution, Shri Birla said that the Indian Diaspora has served both their native and their adopted lands through their sterling contribution in various fields in Austria.

Shri Birla said that the Indian Diaspora represents India's cultural, linguistic and religious diversities while living abroad and that these citizens act as India's soft power in international diplomacy.

Speaking about the COVID pandemic, Shri Birla said that both global cooperation and national action are necessary to face international problems. He expressed happiness that the Indian community has not only made a significant contribution to their adopted homeland Austria but also fulfilled their responsibilities by donating PPE kits and oxygen concentrators in their country of birth. Shri Birla further said that the Indian community has established a Mini India abroad, which keeps the fragrance of the nation's soil alive in its adopted homeland.

Speaking about the Azadi ka Amrit Mahotsav, Shri Birla said that the Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi has envisaged a new and self-reliant India through this festival and India is moving forward on this path at a rapid pace.

Ambassador of India, at the Indian Embassy in Vienna, Austria, Shri Jaideep Mazumdar, also attended the event